

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)
संख्या-433 /XXIV(1)/2018-24/2015
देहरादून दिनांक 15 जून, 2018
कार्यालय ज्ञाप


निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-नियोजन/30458/वि0ना0प0/2015-16, दिनांक 26.02.2016 एवं पत्रांक-नियोजन(04)/14591-92/वि0ना0प0/2017-18, दिनांक 31.08.2017 के प्रस्तावानुसार, प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मंजोली, विकासखण्ड थौलधार का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ल्वार्खा किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या-433 /XXIV(1)/2018-24/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद-टिहरी।
11. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मंजोली, विकासखण्ड थौलधार, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव